

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 04 दिसंबर 2018
जेएमआई में अंतराष्ट्रीय विकलांगता दिवस का आयोजन

अंतराष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षक-शिक्षण एवं गैर अनौपचारिक शिक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया।

जेएमआई के शिक्षक-प्रशिक्षक विभाग द्वारा दृष्टिबाधितों एवं अधिगम अक्षमता के लिए विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

इस विभाग की प्रमुख डा सारा बेगम ने अपने स्वागत संबोधन में विकलांगता दिवस के उपलक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय दिव्यांग शैक्षणिक केन्द्र इग्नू की निदेशक डा हेमलता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।

डा हेमलता ने विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं, उनकी शिक्षा - प्रशिक्षा, उनके सशक्तिकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया।

जेएमआई के वरिष्ठ प्रशिक्षक डा इलियास हुसैन ने इस संबंध में जामिया में चलाए जा रहे क्रियाकलापों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें पोस्टर मेंकिंग, एकल गीत और तात्कालिक भाषण शामिल हैं। जेएमआई की एक दृष्टिबाधित छात्रा ने भी एक गीत पेश किया।

इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ जिसमें समाज में विकलांगों के प्रति व्याप्त नकारात्मक सोच को बदलने के लिए प्रेरित किया गया।

जेएमआई के दृष्टिबाधित अस्टैंट प्रोफेसर डा सौरव राँय ने सर निकोलस संडरसन का उदाहरण देते हुए बताया कि विकलांगता सिर्फ एक नकारात्मक सोच है, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण और विशिष्ट है।

अहमद अज़ीम
जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक